



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

8 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 731 राँची, सोमवार,

30 जुलाई, 2018 (ई०)

---

### भारत निर्वाचन आयोग

-----  
आदेश

10 जुलाई, 2018/ 19 आषाढ़, 1940 (शक)

**संख्या 76/झार.-लो.स./2014--** यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट झारखण्ड राज्य से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2014 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है के स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है।

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य

की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है:-

### सारणी

क्रम सं०	निर्वाचन का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निर्हरता का कारण
1	2	3	4	5
1	झारखण्ड राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन, 2014	6-गिरीडीह	शिवा महतो, मकान नं०-119, ग्राम-घुटवाली, पो०-डुमरी, जिला-गिरिडीह, पिन-825106, झारखण्ड।	लेखा विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे।
2	-वही-	14-हजारीबाग	अजीत कुमार सिंह, ग्राम+पो०-खम्भवाँ, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग, झारखण्ड।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

आदेश से,

के० एन० भार,  
प्रधान सचिव  
भारत निर्वाचन आयोग

-----

उपरोक्त आदेश का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एल० खियांगते  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य सचिव

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

-----

**ORDER****10<sup>th</sup> July, 2018/19 Asadha, 1940 (Saka)**

**No. 76/JKD-HP/2014--** Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the House of the People, 2014 from the State of Jharkhand as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column(5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation, if any, made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

**TABLE**

<b>S.No.</b>	<b>Particulars of Election</b>	<b>Number &amp; Name of the Constituency</b>	<b>Name &amp; Address of the Candidate</b>	<b>Reason of disqualification</b>
1	2	3	4	5
1	General Election to the House of the People 2014 from the State of Jharkhand	6-Giridih	Shiva Mahto H.No. 119 Vill-Ghutwali, PO-Dumri, Dist-Giridih, Pin-825106, Jharkhand.	Failure to lodge account of Election Expenses in the manner required by law.
2	-do-	14-Hazaribag	Ajit Kumar Singh Vill+P.O- Khambhawa, P.S-Bishnugarh, Distt- Hazaribag, Jharkhand.	Failure to lodge any account of Election expenses

By order,

**K.N.BHAR,**  
PRINCIPAL SECRETARY  
ELECTION COMMISSION OF INDIA

-----